

Ref- BSE/2023-24/12

Date: 31st May, 2023

To,

Corporate Relationship Department,

BSE Limited

Phioze Jeejeebhoy Tower,

Dalal Street,

Mumbai – 400 001

Subject: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 pertaining to Audited Financial Results of the company for the quarter and year ended 31st March, 2023

Scrip Code- 539399

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the Newspaper Publication of the Audited Financial Results of the company for the quarter and year ended on 31st March, 2023 approved by the Board of Directors in its meeting held on 29th May, 2023, published in Financial Express (English Newspaper) and Dainik Navjyoti (Hindi Newspaper) on Wednesday, 31st May, 2023.

Kindly take this information on record.

Thanking you.

Yours faithfully

For **Bella Casa Fashion & Retail Limited**

Sonika Gupta

Company Secretary & Compliance Officer

M.No.: A38676

IndusInd Bank

FINANCIAL RESTRUCTURING & RECONSTRUCTION GROUP

11th Floor, Hyatt Regency Complex, New Tower, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable property mortgaged to IndusInd Bank Limited under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The Act) read with proviso to Rule 6(e) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the Borrower / Mortgagees / Guarantors in particular that the Authorized Officer of IndusInd Bank Limited has taken possession of the following property mentioned pursuant to demand raised vide notice issued under Section 13(2) of the Act in the following loan accounts with right to sell the same as "AS IS WHERE IS" AS IS WHAT IS, WHAT EVER IS THERE AS AND WITH WHATEVER REUSE BASIS for realization of Bank's dues plus interest as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues, the underwritten in exercise of power conferred under Section 13(4) of the said Act read with Rule 6(e) of the said Rules proposes to realize the Bank's dues by sale of the said property. The sale of the below mentioned property shall be conducted by way of E-Auction through web portal: <https://www.bankexcess.com>

Name of Account	Name of Mortgage and Guarantors	Details of property	Amount as per Demand Notice & Demand Notice Date	Inspection Date & Time	Reserve Price & EMD	Date & Time of E-Auction	Last Date of Bid Submission
Orient Craft Limited	Guarantors: M/s. Sudhir, Dhringra, M/s. Anoop, Tripathi, M/s. Krishna Kant Kohli (square meters) situated at Pathani Industrial Estate, P.V. Ltd. Road 24/0 meters, South Road 24/0 meters, East Road 80/0 meters, West Road 24/0 meters.	Exclusive charge by way of Memorandum of Enty No. R/152/14/007.91 for deposit of the deeds on all part and parcel of the leasehold property being plots bearing No. A-52 to A-820 measuring 30.00 acres (12409 square meters) situated at Pathani Industrial Estate, P.V. Ltd. Road 24/0 meters, South Road 24/0 meters, East Road 80/0 meters, West Road 24/0 meters.	Rs. 51,14,007.91 as on 31.05.2022 with further interest along with c.o.s. and legal charges to be paid in full & final payment Demand Notice Date: 21.06.2022	15.06.2023 From 11 AM to 2 PM	Rs. 99.00 Crores From Rs. 9.90 Crores To Rs. 0.05 Crores	22.06.2023 From 12:00 Noon to 12:00 Noon	21.06.2023 up to 12.00 Noon

Name of Authorised Officer / Phone No. / E-mail ID: Mr. Mohit Taluja Mobile: 9999399922, E-mail ID: mohit.taluja@indusind.com

TERMS & CONDITIONS: 1. The interested bidders shall submit their EMD details and documents through Web Portal: <https://www.bankexcess.com> (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with <https://www.bankexcess.com>) through Login ID & Password. The EMD shall be payable through NEFT / RTGS in the following account: SUNDRIYASSET MCT Ac.No. 005338460495, IFSC Code: INDB0000005 Intxn by 12:00 Noon on or before the dates mentioned in the table above. The EMD shall also be paid through Demand Draft / Encumbrance of IndusInd Bank Limited. Please note that the Cheques shall not be accepted as EMD amount. 2. The Bank shall not be responsible for any outstanding statutory dues / encumbrances / tax arrears / property tax, etc., if any. The intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property and related to a safely themselves. 3. Since the property is under Symbolic Possession of the Bank, Bank can only arrange for inspection of the property outside the property boundaries. Unaided inspection of the property is subject to permission to access the property from borrower. Property can be inspected strictly on the above mentioned date and time. 4. The intended bidders who have deposited the EMD and require assistance in creating login ID & password, uploading data, submitting bid, training on a bidding process, etc. may contact our service provider M/s. C1 India Private Limited, Helpline No. 024-4302020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024, Mr. Mihalekh Kumar, Mob. No. +91-7680040466, email: id_support@bankexcess.com and for any property related query may contact the Authorized Officer as mentioned above in office hours during the working days (10 AM to 5 PM). 5. The Highest bid shall be subject to approval of IndusInd Bank Limited. Authorized Officer reserves the right to accept / reject all or any of the offers / bids so received without assigning any reasons whatsoever. His decision shall be final & binding. 6. At least one bid needs to be submitted mandatorily on the auction portal after there is only one bidder. First bid can be submitted minimum at the Reserve Price. 7. For detailed terms and conditions refer to the Bank's website www.indusind.com and www.bankexcess.com.

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 6(e) & 6(f) OF THE SECURITIES ACT, 2002

The borrower / guarantors / mortgagees are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto date interest and ancillary expenses before the date of E-Auction, failing which the property will be auctioned / sold and balance due, if any, will be recovered with interest and cost.

Date: 31.05.2023 Place: Bhiwadi, Rajasthan Authorised Officer, IndusInd Bank Ltd.

BELLA CASA FASHION & RETAIL LIMITED

Regd Office: E-102, 103, EPIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur, CIN: L17124R1996PLC01522
Tel: 0141-2771844, Email: info@bellacasa.in, website: www.bellacasa.in

EXTRACT OF UNAUDITED/AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2023

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 31-3-2023		Year Ended 31-3-2023		Quarter Ended 31-3-2022		Year Ended 31-3-2022	
		Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited
1.	Total Income from Operations	4,082.27	5,141.28	5,220.74	20,229.88	20,636.35			
2.	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	191.88	314.05	313.95	1,033.15	1,536.87			
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	191.88	314.05	313.95	1,033.15	1,536.87			
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	138.41	232.53	212.09	776.03	1,116.19			
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	4.67	-	1.70	4.67	7.70			
6.	Equity Share Capital	1,147.50	1,147.50	1,147.50	1,147.50	1,147.50			
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (Not Annualised except for March)	1.25	2.03	1.92	6.80	9.79			
1. Basic		1.25	2.03	1.92	6.80	9.79			
2. Diluted		1.25	2.03	1.92	6.80	9.79			

Disclosures:
1. The above financial results are reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on May 29, 2023.
2. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and year ended on 31st March 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and year ended financial results are available on the websites of the Stock Exchange: www.bseindia.com and on Company's website www.bellacasa.in.

Place: Jaipur Date: 29th May, 2023

For and on behalf of Bella Casa Fashion & Retail Limited
Harish Kumar Gupta
Chairman & Whole Time Director (DIN: 01323944)

MADHAV MARBLES AND GRANITES LIMITED

CIN: L14101RJ1980PLC004903, Web: www.madhavmarbles.com, Mail: investor.relations@madhavmarbles.com
Address: First Floor, "Munshi Towers", 16, Saheli Marg, Udaipur - 313001

Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and year ended March 31, 2023

Particulars	Quarter ended 31.03.2023		Year ended 31.03.2023		Quarter ended 31.03.2022		Year ended 31.03.2022	
	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited
Total Income	95.85	788.35	82.89	3445.93	3080.23	95.85	82.89	3445.93
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(58.48)	26.70	(27.87)	108.37	91.19	(58.48)	26.70	(27.87)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(58.48)	26.70	(27.87)	108.37	91.19	(58.48)	26.70	(27.87)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(58.48)	26.70	(27.87)	88.37	74.19	(69.75)	40.37	(18.63)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(50.99)	26.70	(10.34)	93.86	90.72	(64.26)	40.37	(5.10)
Equity Share Capital	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)	1.27	0.48	0.01	1.05	2.17	0.47	1.90	0.67
1. Basic	1.27	0.48	0.01	1.05	2.17	0.47	1.90	0.67
2. Diluted	1.27	0.48	0.01	1.05	2.17	0.47	1.90	0.67

Notes:
1. The standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 29, 2023.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Period ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated 5th July, 2016. The full format of the Quarterly and period ended Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges and on Company's Website www.madhavmarbles.com.
Place: Udaipur Date: 28/05/2023

For Madhav Marbles And Granites Ltd
Madhav Bhat
CEO and Managing Director (DIN: 0781541)

RAJ DARSHAN INDUSTRIES LIMITED

CIN: L14100RJ1980PLC02145, Web: www.rajdarshanindustrieslimited.com, Mail: info@rajdarshanindustrieslimited.com
Address: 59, Moti Magri Scheme, Udaipur - 313001

Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and year ended March 31, 2023

Particulars	Quarter ended 31.03.2023		Year ended 31.03.2023		Quarter ended 31.03.2022		Year ended 31.03.2022	
	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited
Total Income	53.77	43.14	63.87	244.96	134.03	53.77	43.14	63.87
Net Profit for the period before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items	5.97	8.25	8.22	30.87	52.78	5.97	8.25	8.22
Net Profit for the period before tax after Exceptional and/or Extraordinary Items	5.97	8.25	8.22	30.87	52.78	5.97	8.25	8.22
Net Profit for the period after tax after Exceptional and/or Extraordinary Items	6.89	4.29	9.81	29.83	53.80	9.89	4.20	12.20
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(62.58)	(49.64)	(17.59)	(66.57)	325.27	(62.83)	(49.73)	(17.30)
Equity Share Capital	390.83	390.83	390.83	390.83	390.83	390.83	390.83	390.83
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)	0.31	0.14	0.38	0.95	1.72	0.30	0.14	0.38
1. Basic	0.31	0.14	0.38	0.95	1.72	0.30	0.14	0.38
2. Diluted	0.31	0.14	0.38	0.95	1.72	0.30	0.14	0.38

Notes:
1. The standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 29, 2023.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Period ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated 5th July, 2016. The full format of the Quarterly and period ended Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges and on Company's Website www.rajdarshanindustrieslimited.com.
Place: Udaipur Date: 28/05/2023

For Rajdarshan Industries Ltd
Dhendra Sharma
CEO & Managing Director (DIN: 00821174)

THE BUSINESS DAILY

FOR DAILY BUSINESS

FINANCIAL EXPRESS

financialexpress.in

IDBI Bank

8th Floor, Plot B, Block 2, NBCC Office Complex, East Kidalu Nagar New Delhi Pin : 110023 Ph. No. 011-69297166, 69297163

MEGA E-AUCTION SALE ON - 20.06.2023, 11:00 AM to 12:30 PM

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION AND SALE OF HYPOTHECATED VEHICLES

Notice is hereby given that in view of the details committed by following borrowers, IDBI Bank Limited (IDBI Bank) has taken re-possession of the vehicles from the Borrowers. IDBI Bank invites offers for sale of the following hypothecated vehicles:

Sl. No.	Name of Borrower / Account Number	Vehicle Registration Number	Chassis Number	Reserve Price	EMD
1.	Hanuman Prasad / 65500710018800	DL-RT14742742	TKA MGRS HGRS CSLS CSLS	₹ 20,000.00	₹ 3,000.00
2.	Ravi / 7005971001001880	DL-229637	TKA MGRS HGRS ECGR REP CSLS	₹ 35,000.00	₹ 5,000.00
3.	Mehra Anur / 028687100099281	UP-14F73771	MGRS State Bank 10V CSLS	₹ 39,000.00	₹ 4,000.00

Details of accounts in which EMD is to be deposited through RTGS / NEFT / IFSC CODE: IDBI0000005 / IFSC CODE: IDBI0000005

Terms & Conditions: (1) The sale of vehicles on "as is where is basis", "as what is basis", "whatever there is basis" and "no recourse basis" for on behalf of the IDBI Bank Ltd. The sale is strictly subject to the terms & conditions given in this advertisement and in the "Bid Document" but Document can be obtained from any of our offices, on all working days, downloaded from IDBI website www.idbibank.com and also at <https://www.bankexcess.com>. (2) The sale will be on an auction platform at website <https://www.bankexcess.com> through E-auction service provider C1 India Pvt. Ltd., Contact Mr. Vinod Choudhary (email: chd@idbi.com and support@bankexcess.com) or Call: +91-8013887893 / Phone: +91-124-4302020 (4) The authorized officer reserves the right to accept or reject all bids, if not found acceptable to postpone cancellation of the auction anytime without assigning any reason whatsoever and his decision and the regard shall be final. (5) The successful bidder will be required to deposit 20% of the sale price of the sale price (less the amount of EMD deposited at the time of confirmation of sale). The balance amount of the sale price is to be paid within 15 days of the confirmation of the sale or such extended period as may be agreed to by the A.O. In case of failure to deposit the balance 75% of the bid amount within the prescribed period, the amount already deposited will be forfeited, interest earned thereon, if any, shall be forfeited and the balance 25% of the bid amount immediately or balance 75% of the bid amount within the prescribed period, the amount already deposited will be forfeited and secured assets will be resold. (7) All statutory dues/undated charges/other dues including registration charges, stamp duty, taxes extra shall be paid by the purchaser. For Further details and complete Terms and Conditions, please visit www.bankexcess.com and/or contact on the given number. (8) All statutory duties / taxes / maintenance etc. outstanding as on date and yet to fall due will be borne by the bidder/s and would be borne by the successful bidder/s and would not take any responsibility to provide information on the same. (9) Successful bidder will be liable to pay GST on the auction sale value at the rate of 18%. (10) The borrower/guarantors are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto date interest and ancillary expenses before the date of auction failing which the property will be auctioned / sold and balance due, if any, will be recovered with interest and cost.

DATE: 30.05.2023, PLACE: New Delhi Sd/- Authorised Officer, IDBI Bank Ltd.

SKYWEB INFOTECH LIMITED

CIN: L72900DL1983PLC019763
Registered Office: K-26, Second Floor, Lajpat Nagar - II, New Delhi - 110044
Corporate Office: D-348, Sector-53 Noida, Uttar Pradesh - 201307
Website: www.skywebinfotech.com, Tel. No. 011-23846999

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2023

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2023		Year ended 31.03.2023		Quarter ended 31.03.2022		Year ended 31.03.2022	
		Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited
1.	Total income from operations (net)	(6.11)	(6.07)	(3.56)	(17.18)	(7.15)	(6.11)	(6.07)	(3.56)
2.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(6.11)	(6.07)	(21.83)	(17.18)	(21.42)	(6.11)	(6.07)	(21.83)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(6.11)	(6.07)	(21.83)	(17.18)	(21.42)	(6.11)	(6.07)	(21.83)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(6.11)	(6.07)	(21.83)	(17.18)	(21.42)	(6.11)	(6.07)	(21.83)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(6.11)	(6.07)	(21.83)	(17.18)	(21.42)	(8.83)	0.85	(213.70)
6.	Equity Share Capital	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7.	Reserves (including Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	(44.10)	(26.92)	-	-	-	(30.54)
8.	Earnings per share (for continuing and discontinued operations)	(0.61)	(0.61)	(21.58)	(1.72)	(21.74)	(0.66)	0.09	(21.37)
1. Basic	(0.61)	(0.61)	(21.58)	(1.72)	(21.74)	(0.66)	0.09	(21.37)	
2. Diluted	(0.61)	(0.61)	(21.58)	(1.72)	(21.74)	(0.66)	0.09	(21.37)	

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of the Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter & Year ended 31st March, 2023, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Quarter & Year ended Financial Results are available on the website of the Company (www.skywebinfotech.com) and on the website of Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msx.in).
2. The Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter & year ended March 31, 2023 have been duly reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 30th May, 2023.
For and on behalf of the Board
Sudesh Infotech Limited
Sd/-
Date: 30.05.2023
Place: Delhi
Renu Gupta
Whole-time Director

YORK EXPORTS LIMITED

REGD. OFFICE: D-6, Divan Three Apartments, 30, Ferozeshah Road, New DELHI
Website: www.yorkexports.in CIN : L74899DL1983PLC015416

Extract of audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2023

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2023		Year ended 31.03.2023		Quarter ended 31.03.2022		Year ended 31.03.2022	
		Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited
1.	Total Income from Operations	95.85	788.35	82.89	3445.93	3080.23	95.85	82.89	3445.93
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(58.48)	26.70	(27.87)	108.37	91.19	(58.48)	26.70	(27.87)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(58.48)	26.70	(27.87)	108.37	91.19	(58.48)	26.70	(27.87)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(58.48)	26.70	(27.87)	88.37	74.19	(69.75)	40.37	(18.63)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(50.99)	26.70	(10.34)	93.86	90.72	(64.26)	40.37	(5.10)
6.	Equity Share Capital	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	(622.06)	(529.53)	-	-	-	(1194.42)
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- per share)	(1.52)	0.79	(0.31)	2.79	2.70	(1.91)	1.20	(0.69)
1. Basic & Diluted		(1.52)	0.79	(0.31)	2.79	2.70	(1.91)	1.20	(0.69)

Notes:
1. The above results are an extract of the detailed format of Quarterly / Yearly Financial Results filed with the BSE Ltd. Under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's Website www.yorkexports.in.
2. The Consolidated Financial Results have been prepared in accordance with principles of Indian Accounting Standards (Ind AS) as specified by ICAI and section 133 of the Companies Act, 2013.
3. The financial results for the quarter and year ended March 31, 2023 are in compliance with Indian Accounting Standard (IND AS) notified by the MCA.
For and on behalf of the Board of Directors
For York Exports Ltd
Sd/-
Place: Ludhiana
Date: 30.05.2023
Mg. Director
DIN: 00264986

APPOORVA LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN: L74899DL1983PLC016715, Ph. No: 0120-4570949, E-mail: apoorva@apoorvaleasing.com, Website: www.apoorvaleasing.com
Regd. Off: Block 34, House No. 247, Tripathi Park, Delhi-110091, Corp. Off: C-10, Sector-53, Noida, Uttar Pradesh-201301

Extract of Standalone and consolidated Financial Results for the Quarter and year ended 31st March, 2023

Particulars	Quarter Ended on 31.03.2023		Year ended on 31.03.2023		Quarter ended on 31.03.2022		Year ended on 31.03.2022	
	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited

